

सैनिक स्कूल गोपालगंज
विषय-हिंदी -कोर्स 'अ'
कक्षा-IX
गृहकार्य

पाठ-1 दो बैलों की कथा (कहानी)

1. निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए :-

- i) गया ने हीरा-मोती को दोनों बार सुखा भूसा डाल दिया।-कारण निम्न है ?
क) पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना ख) गरीबी के कारण
ग) बैलों के व्यवहार से दुखी था घ) बैलों के हृदय सामग्री की जानकारी नहीं थी
- ii) पाठ में सबसे बुद्धिहीन जानवर कहा गया है ?
क) बैलों को ख) गायों को ग) गधे को घ) सांड को
- iii) कांजीहौस है ?
क) कासाई घर ख) खटालघर ग) हॉस्पिटल घ) बेघर जानवरों का घर
- iv) निम्नलिखित उपन्यासों में कौन-सा प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है ?
क) सेवासदन ख) कायाकल्प ग) गबन घ) मैला आचल
- v) गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है ?
क) ऋषि-मुनियों के ख) कुत्ते से ग) बेवकूफ से घ) पुजारियों से
- vi) बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह क्या प्रदर्शित करता है ?
क) अपनी शक्ति ख) अपनी जिद्द ग) अपना अशंतोष घ) अपना महत्व
- vii) वहाँ पचास-साठ लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे ?
क) दोनों को खरीदने के लिए ख) दोनों के अंतिम दर्शन करने के लिए
ग) दोनों के लिए चारा लाये थे घ) दोनों का फोटो खींचने के लिए
- viii) दोनों मित्र कितने दिन बधे रहे ?
क) दो दिन ख) पाँच दिन ग) एक सप्ताह घ) चार दिन
- ix) प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था ?
क) 1880 ई० ख) 1885 ई० ग) 1890 ई० घ) 1905 ई०
- x) लड़की के पिता का नाम था ?
क) घोरी ख) हल्कू ग) भैरो घ) हुसैनी

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :-

- i) कांजीहौस में कैद पशुओं की हाजरी क्यों ली जाती होगी ?
ii) छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया ?
iii) गया ने हीरा-मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया ?
iv) हीरा और मोती की हड्डियाँ क्यों निकल आई थी ?
v) गया के साथ जाते समय हीरा-मोती के मन में आए भावों का उल्लेख कीजिए ।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए :-

- i) "जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएँ होती हैं।" पठित पाठ के आधार पर लिखिए ।
ii) "एकता में शक्ति होती है।" पठित पाठ के आधार पर लिखिए ।
iii) मोती के चरित्र की चार विशेषताएँ लिखिए ।
iv) दो बैलों की कथा में आए निति विषयक मूल्यों को लिखिए ।

4. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए :-

रात को जब बालिका रोटियाँ खिलाकर गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोती रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार-बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला सुर लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछे खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले डटी हूँ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ दाल दी जाय।

- i) दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबाने लगे ?
- ii) दोनों बैल लड़की का हाथ क्यों चाटने लगे ?
- iii) लड़की ने दोनों बैलों को भागने के लिए क्यों कहा ?
- iv) घर में बैलों की नाक में नाथ डालने की सलाह क्यों हो रही थी ?

5. व्याकरण :-

कहानी में जगह-जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई पाँच मुहावरे छांटिये और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिये।

(समाप्त)